



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1945 (श0)  
(सं0 पटना 384) पटना, मंगलवार, 9 मई 2023

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

कार्यालय आदेश  
4 मई 2023

सं० स्था०/सा०-01-20/2022-91/सी०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5976, दिनांक-28.03.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के आलोक में बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मेधा के आधार पर गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना हेतु बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्न वर्गीय लिपिक पद हेतु अनुशासित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को परीक्ष्यमान के रूप में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पी0बी0-1, ग्रेड पे-1900 के संगत वेतन स्तर-2 एवं अनुमान्य देय भत्तों के साथ नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	आवेदन सं०/खेल विधा का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम/ स्थायी/वर्तमान पता	आरक्षण श्रेणी
1	सुश्री अपराजिता कुमारी	21/हॉकी	23.12.1992	श्री अरविन्द कुमार सिंह, मोहल्ला-सलेमपुर डुमरा, भगतीन गली, पोस्ट-बी0भी0कॉलेज, थाना-हवाई अड्डा, जिला-पटना पिन-800014	पिछड़ा वर्ग (महिला)
2	सुश्री श्रेया कुमारी	09/हॉकी	11.08.1998	श्री रमेन्द्र कुमार रमण, शंकर कॉलोनी, रोड नं०-2, आशियाना नगर, जिला- पटना, पिन-800025	सामान्य

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाई जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। नव नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक के वेतन का भुगतान शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के उपरान्त किया जाएगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. सभी नवनियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक दिनांक-15.05.2023 तक अपना योगदान संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में समर्पित करेंगे।
7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
9. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी विधिवत् रूप से विरमित/त्याग-पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

आदेश से,  
अनिमेश पाण्डेय,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 384-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>